



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 आषाढ 1933 (श0)  
(सं0 पटना 342) पटना, बुधवार, 20 जुलाई 2011

---

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

31 मई 2011

सं0 सं0का0-1/वि0स0 (सचे०सत्ता०दल)-7-03/2011-1046—श्री रामसेवक सिंह, माननीय सचेतक, सत्तारुढ़ दल, बिहार विधान-सभा के पत्रांक शून्य, दिनांक 09 मार्च 2011 एवं विभागीय पत्र संख्या 454, दिनांक 15 मार्च 2011 के आलोक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन) की आदेश संख्या 2098, दिनांक 13 मई 2011 द्वारा डा० महेन्द्र प्रसाद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बड़हरा, भोजपुर की सेवाएँ श्री राम सेवक सिंह, माननीय सचेतक, सत्तारुढ़ दल, बिहार विधान-सभा, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गयी है।

2. उक्त आदेश के आलोक में डा० महेन्द्र प्रसाद को दिनांक 24 मई 2011 के प्रभाव से श्री रामसेवक सिंह, माननीय सचेतक, सत्तारुढ़ दल, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर प्रतिनियुक्त के आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

3. डा० प्रसाद, आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर तब तक रहेंगे जब तक श्री रामसेवक सिंह, माननीय सचेतक, सत्तारुढ़ दल, बिहार विधान-सभा में अपने पद पर बने रहेंगे। इस बीच भी इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के पैतृक विभाग को वापस की जा सकती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
नवनीत रंजन तिवारी,  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 342-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>